



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 चैत्र 1937 (श0)  
(सं0 पटना 394) पटना, बृहस्पतिवार, 26 मार्च 2015

---

सं0 सं014 / विविध-17 / 14—219(14)

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

20 फरवरी 2015

विषय:—उग्रवादियों/माओवादियों/अपराधियों के साथ मुठभेड़, बम विस्फोट, लैण्डमाइन्स ब्लास्ट आदि में गंभीर रूप से घायल हुए पुलिस कर्मियों के गैर सरकारी/गैर C.G.H.S/निजी अस्पतालों में कराई गयी चिकित्सा पर हुये वास्तविक चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति।

राज्यांतर्गत उग्रवादियों/माओवादियों/अपराधियों के साथ मुठभेड़/बम-ब्लास्ट/लैण्डमाइन्स विस्फोट में गंभीर रूप से घायल पुलिस कर्मियों की चिकित्सा "विशेष बाध्यकारी स्थिति में गैर-मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में भी प्राणरक्षार्थ करवाने की बाध्यता होती है। गैर-सरकारी/गैर C.G.H.S मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपरोक्त बाध्यकारी परिस्थिति में करवायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति में प्रावधान नहीं रहने के कारण अतिशय कठिनाई होती है।

अतः समयक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निम्न प्रावधान किये गये है।

2. उग्रवादियों/माओवादियों/अपराधियों के साथ मुठभेड़/बम-विस्फोट/लैण्ड माइन्स विस्फोट आदि में गंभीर रूप से घायल पुलिस कर्मियों के गैर सरकारी/गैर C.G.H.S/निजी अस्पतालों में कराई गई चिकित्सा पर हुई वास्तविक व्यय राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3. चिकित्सा पर हुई वास्तविक व्यय की अधिकतम सीमा रु0 10,00,000/—(दस लाख) निर्धारित किया जाता है। विदेश में करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार को निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा से अधिक राशि की स्वीकृति का अधिकार रहेगा।

4. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-1070(14) दिनांक 20.05.2006 एवं 1182(14) दिनांक 02.06.2006 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुरेश कुमार शर्मा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 394-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>